



EAST COAST RAILWAY

प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी का कार्यालय/
Office of the Principal Chief Personnel Officer
द्वितीय तल, - 751 017
Rail Sadan, IInd Floor, Bhubaneswar-751 017

स्थापना क्रमांक/ Estt.Srl. No.93/2019
पूतरे/कार्मिक/आर/ECOR/Pers/R/Selection

Date: 18.04.2019

सेवा मे,
सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों/समन्वयक विभागाध्यक्षों, पू त रे/भुवनेश्वर
मं.रे.प्र/व.मं.का.अधिकारी/मं.का.अधिकारी-खोरधारोड,बालातेरू, संबलपुर,
मु:कारखाना प्रबंधक/कारखाना कार्मिक अधिकारी- मंचेश्वर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार/रेल दावा अधिकरण,
व.का अधिकारी(नि)/भुवनेश्वर
महा सचिव/इकोर थ्र. कां., महा सचिव/इकोर थ्र. यू.,
महा सचिव/एआई ओ बी सी आर ई ए, महा सचिव/ ए आई एस सी एस टी आर ई ए

Sub: Guidelines regarding written examination in compliance to RBE No-196/2018

A copy of this Railway's Lr. No-ECOR/Pers/R/Guidelines Dated 18.04.2019 on the above quoted subject is forwarded herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above,

(G.Sethy)

**Dy. Chief Personnel Officer(IR&W)
For Principal Chief Personnel Officer**

Copy to :

- 1) महाप्रबंधक के सचिव/पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
- 2) मुकाधि/मुकाधि(प्रशा.), उप म.प्र. अध्यक्ष(रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ)
- 3) उप मुख्य प्रबंधक(सू.प्रौ), उप मुकाधि(औ.सं.एवं कल्याण), वकाधि(इंजी.)
- 4) वकाधि(मुख्या.), वकाधि(स्टाफ), वकाधि(राज. एवं न्याया.)
- 5) मुकाधि के निजी सचिव/सहा.कार्मिक अधि.(मुख्या.),सहा.कार्मिक अधि.(कल्याण)

East Coast Railway

Office of the
Principal Chief Personnel Officer,
Rail Sadan, IInd Floor,
Bhubaneswar – 751017

No.ECoR/Pers/R/Guidelines

Date: 18.04.2019


Sr.DPOs – KUR, WAT & SBP,
Dy.CPO(Con)/BBS & SPO/Con/VSKP,
WPO/CRW/MCS, All Concerned.

Sub: Guidelines regarding written examination in
compliance to RBE NO-196/2018.

<<<<<>>>>

On introduction of 100% Objective Paper for promotional examination as well as to expedite and simplify examination process, the following procedure should be adopted uniformly over East Coast Railway.

- 1) The questions of the written examination will be 100 % Objective multiple choice type.
- 2) The answers are to be marked on OMR answer sheets and the OMR answer sheet will be evaluated manually.
- 3) There will be 110 questions of objective multiple choice type with four answer options and the candidate has to answer a maximum of 100 questions.
- 4) In case the candidate answers more than 100 questions, first 100 attempted questions are to be taken for evaluation.
- 5) Cutting, Overwriting, erasing or alternation of any type in answer will not be accepted and Zero marks will be given for answer having correction/overwriting.
- 6) There shall be negative marking for incorrect answers. One third of the marks allotted for each question will be deducted for wrong answers
- 7) The written examinations will be of 03 (three) hours duration


(T.Nath) 18.4.19

Senior Personnel Officer (staff)
For Principal Chief Personnel Officer